



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933

No 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

का.आ. 57(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 50 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग को उक्त अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

मनोज कुमार परिडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

S.O. 57(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 50 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) the Central Government hereby authorises the Secretary to the Government of India in the Department of Consumer Affairs as the appellate authority under the said Act.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.